



Ref. No. CS/S/L-517/2021-22

PRICE "LESS" FASHION

11th August, 2021

<p>To: The Listing Department NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Scrip Code: VMART Fax: 022-26598120 Email: cmlist@nse.co.in</p>	<p>To: The Corporate Relationship Department THE BSE LTD Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code: 534976 Fax: 022-22723121 Email: corp.relations@bseindia.com</p>
---	--

Sub: Copies of the Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of the Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2021 as published in terms of the Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, on Wednesday 11th August, 2021 in "Financial Express" — English and "Jansatta" — Hindi newspapers.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Truly
For V-Mart Retail Limited


Anand Agarwal
Chief Financial Officer



Encl: As above

V-MART RETAIL LTD.

CIN- L51909DL2002PLC163727

Corporate Office : Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area Phase V, Gurgaon - 122 016 (Haryana)
Tel. : 0124-4640030, Fax No. : 0124-4640046 • Email : info@vmart.co.in • Website : www.vmart.co.in
Registered Office : 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC06387
Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019
Phone: 011-41808125, Website: www.mcl.net, Email: info@mclindia.com

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	
Total Income from Operations	2589.58	393.63	9411.65
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	120.12	(50.83)	343.21
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	120.12	(50.83)	343.21
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	90.34	(47.98)	256.74
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	88.35	(51.02)	248.95
Equity Share Capital (Rs. 10 each)	732.68	732.68	732.68
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year (Other Equity)			2,415.76
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) - Rs. (Not annualised for the quarter)			
- Basic	1.23	(0.65)	3.50
- Diluted	1.23	(0.65)	3.50

Notes:
1- The aforementioned results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th August, 2021. The statutory auditors of the company have carried out a Limited Review of the Results for the quarter ended 30th June, 2021.
2- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the company's website at www.mcl.net.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pradeep Khandelwal
(Managing Director)
DIN: 00124082

Place : New Delhi
Date : 10th August, 2021



"FORM NO. INC-26"
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Before the Central Government Regional Director, Northern Region, National Capital Territory of Delhi
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of KALATI HOLDINGS PRIVATE LIMITED (CIN:U65100DL1991PTC043326) having its registered office at 40-41, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi 110025
Petitioner
Notice is hereby given to the general public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on Monday, July 26, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Haryana".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at 40-41, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi 110025
For and on behalf of the Applicant
KALATI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
Sd/-
Date : 10.08.2021
Anil Baluni
Director
Place : New Delhi
Add : C-554, LIG Flats, Bri Vihar, Near Surya Nagar, Chandigarh, GZ142011
DIN : 00279237

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2021

₹ in lakhs (except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)		30.06.2020 (Unaudited)
1	Total Income	18,191.60	35,621.65	7,945.63	109,650.04
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,851.34)	(229.05)	(4,535.99)	(966.48)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,851.34)	(229.05)	(4,535.99)	(966.48)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,871.42)	(147.47)	(3,363.72)	(620.30)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(2,879.11)	(126.60)	(3,368.77)	(651.03)
6	Paid up equity share capital (face value of ₹10 per share each)	1,971.11	1,970.61	(1,816.59)	1,970.61
7	Other equity	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualized) -				
	(a) Basic (₹)	(14.57)	(0.77)	(18.52)	(3.37)
	(b) Diluted (₹)	(14.57)	(0.77)	(18.52)	(3.37)

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results is available on the Stock Exchanges websites - www.seindia.com/www.bseindia.com and on the Company's Website - www.vmart.co.in

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind-AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 10 Aug 2021

For and on behalf of the Board of Directors of
Sd/-
Lalit Agarwal
Chairman & Managing Director
DIN: 00900900

Place: Gurugram
Date: 10 August, 2021

V-MART RETAIL LIMITED
Regd. Off. - 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110029.
Corporate Off. - Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase - V, Gurugram - 122016
Tel. : 0124-4640030; Fax : 0124-4640046; Email : info@vmart.co.in; Website: www.vmart.co.in; CIN - L51909DL2002PLC163727

TITAN SECURITIES LIMITED
Regd. Office :- A-2/3, IIIrd FLOOR LUSA TOWER, AZADPUR, DELHI-110033
Phone No. 011-27674181 | Fax No. +91-11-47619811 | Email ID: titansecurities@yahoo.com | CIN : L67190DL1993PLC052050

STATEMENT OF STANDAL ONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021
(Rs. IN LAKHS) except for EPS

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE			
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	188.65	4,552.44	33.20	4,727.78
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	39.14	15.92	-2.76	33.40
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	39.14	15.92	-2.76	91.78
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	29.29	-49.72	-2.76	7.11
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)(refer note 3)	56.49	-43.51	12.64	46.43
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet	-	-	-	362.18
8	Earning Per Share (of INR 10/- each)				
	(a) Basic	0.12	-0.20	-0.01	0.03
	(b) Diluted	0.12	-0.20	-0.01	0.03

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021
(Rs. IN LAKHS) except for EPS

Sr. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	188.65	4,552.44	33.20	4,727.78
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, share in profit of associate, exceptional and/or extraordinary items)	39.14	15.92	-2.76	33.40
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax and share in profit of associate (after exceptional and/or extraordinary items)	39.14	15.92	-2.76	91.78
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	322.34	120.76	419.66	1,026.21
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)(refer note 3)	349.54	126.97	435.06	1,065.53
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet	-	-	-	1,923.81
8	Earning Per Share (of INR 10/- each)				
	(a) Basic	1.29	0.48	1.68	4.10
	(b) Diluted	1.29	0.48	1.68	4.10

NOTES:
1- The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2021 filed with the BSE Limited Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the said quarter ended on 30th June, 2021 are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on company website at www.titansecuritieslimited.com
2- The above unaudited Standalone & Consolidated financial results for the quarter ended on 30.06.2021 have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at its meeting held on August 10, 2021. The above result have been reviewed by Statutory Auditors of the Company in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015.
3- The Company has elected to exercise the option permitted under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by Taxation Law (Amendment) Ordinance 2019 Accordingly, the Company has recognized provision for income tax for the quarter ended on 30th June, 2021 and re-measured its deferred tax liability on the basis of the rate prescribed in the said section.
4- Amid continued COVID-19 pandemic and gradual phase out of restrictions, economic activities have started returning to normal. Employees of the Company continue to work from home. The Company has witnessed fewer deal closures during the quarter. The Company believes that it has taken into account all possible impact of know events arising out of COVID-19 pandemic in preparation of financial results. However, the impact assessment of COVID-19 is a continuing process given its nature and duration. The Company is continuously monitoring any material change that may influence future economic conditions.
5- The Standalone & Consolidated unaudited financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) under section 133 of the Companies Act 2013 (the 'accounting principles generally accepted in India').

For and on behalf of Board of Directors
for TITAN SECURITIES LIMITED
Sd/-
MANJU SINGLA
Managing Director
DIN-00027990

Place : Delhi
Date : 10/08/2021

Canara Bank
RECOVERY SYNDICATE

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Canara Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security interest Act, 2002 (Act. No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the Borrower/Surety/Owner/s as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of the said notice. The borrower/Surety/Owner/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Surety/Owner/s and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 & 9 of the said Rules. **The Borrower's attention is invited to provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.** The Borrower/Surety/ Owner/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property, and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, **Respective Branch** for the amount detailed below and interest together with expenses thereon.

S. No.	Name of the Branch/Borrower/Guarantor	Description Of Immovable Property	Date of Demand & Possession Notice	Amount Outstanding
1.	Branch: Haridwar Main-II Borrower: M/s Sudersan Ashram, Railway Road, Haridwar. Guarantor: Mahant Vishnu Dass C/O Mahant Nar Singh Dass, R/o Guru Sevak Niwas, Uchhal Ashram, Sravan Nath Nagar, Haridwar, Uttarakhand and Mr. Rajesh Arora S/o Late Sh. Ghanshyam Dass, R/o 156, Ghanshyam Niwas, Sarvan Nagar, Haridwar, Uttarakhand.	All that part and parcel of the property consisting of Flat No./Plot No./Shop No. situated at Part of Plot No. 836 & 837 Lalla Rao Puri, Haridwar, Pargana - Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar. Total area 379.52 sq. mtr, Regd. Sale Deed No. 490, Dt. 28.01.1999 registered in the name of Mahant Raghubeer Dass. Boundaries: East: Road, West: Moti Lal Panjwani, North: Rakhya Mahila Hospital, South: Trishul Hotel.	Date of Demand Notice 03.04.2021 Date of Possession notice 05.08.2021	Rs. 22,97,780.38 + Interest thereon
2.	Branch: Haridwar Main-II Borrower: Mrs. Saroj Devi W/o Mr. Akhilesh Kumar Singh And Mr. Akhilesh Kumar Singh S/o Mr. Ram Parikha Singh R/o Balaji Enclave, Vill- Jagjeetpur Mustkam, Pargana- Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar. Guarantor: Mr. Ankur Sahu S/o Mr. Jawaharala Sahu R/o Sahu Niwas, Upper Road, Chota Jogi Bara, Haridwar (UK).	All that part and parcel of property consisting of Flat No./Shop No. situated at Moh. Balaji Enclave, Vill- Jagjeetpur Mustkam, Pargana- Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar [out side Municipal Limit] Total area 652.50 sq. feet, Regd. Sale Deed No. 1967, Dt. 12.03.2014 registered in the name of Mrs. Saroj Devi W/o Akhilesh Kumar Singh. Boundaries: East: Road 20 feet, West: Plot No. 14, North: Chak Road, South: Part Plot No. 11.	Date of Demand Notice 03.04.2021 Date of Possession notice 05.08.2021	Rs. 15,91,789.53 + Interest thereon
3.	Branch: Haridwar Main-II Borrower: Mrs. Savitri Devi W/o Mr. Devendra Kumar and Mr. Devendra Kumar S/o Mr. Baldev Singh, R/o Shiv Nagar, Rani Galli, Vill- Bhupatwala Kalan, Pargana- Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar. Guarantor: Mr. Narash Kumar Gauda S/o Mr. Ram Mehar, R/o House No. 55, Ward No. 02, Bhupatwala, Haridwar (UK).	All that part and parcel of the property consisting of Flat No./Plot No./Shop No. - Situated at Shiv Nagar Rani Galli Vill- Bhupatwala Kalan Pargana- Jwalapur, Teh. & Distt. Haridwar (with Municipal Limit) Kharsa No. 91 M. Total area 430.00 Sq. feet, Regd. Sale Deed No. 5968 Dt. 01.08.2014 registered in the name of Mrs. Geeta W/o Late Mr. Om Prakash Rawat. Boundaries: East: House Rajbeer, West: Plot of Devraj, North: House of Raha, South: Plot of Om Prakash.	Date of Demand Notice 03.04.2021 Date of Possession notice 05.08.2021	11,59,461.76 + Interest thereon
4.	Branch: Haridwar Main-II Borrower: Mr. Sandeep Kumar S/o Mr. Inder Singh, R/o A-607/472, Mohalla- Chakian, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand. Guarantor: 1. Mr. Sattar Ahmad S/o Late Mussarraf Ali, R/o Subhash Nagar, Jwalapur, Haridwar and 2. Mr. Mansoor Ali S/o Mohd. Haneef, R/o 166 Paundhoi, Idgah Road, Jwalapur, Haridwar.	All that part and parcel of the Property consisting of Flat No./Plot No./Shop No. situated at Pandeywala Chor Gali, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand, Area 61.39 Sq. Meter with in the registration sub-district Haridwar, and district Haridwar. Sale Deed No. 6300, Dated 12.09.2011, Bounded: On the North by: Property of Mr. Krishan Kumar, On the South by: Seller Property, On the East by: 10 feet Road, On the West by: Property of Mehboob.	Date of Demand Notice 05.02.2020 Date of Possession notice 10.08.2021	11,40,743.29 + Interest thereon

Date : 10.08.2021 Place: Haridwar Authorised Officer, Canara Bank

पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank
...जसो के नाम से...
Recovery Centre, PNB House, BHEL, Sector-IV, Haridwar-249403, E-mail: cs8238@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective Borrowers/Guarantors/Mortgagors to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice(s). The Borrowers/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against each account. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the property/will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

S. No.	Name of the Branch/ Borrower	Description of Mortgaged Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of possession notice affixed	Amount outstanding as on the date of demand notice
1.	Branch: Amhadpur, Haridwar Borrower: Sh. Yogesh Kumar Sharma S/o, Sh. Raj Kumar Sharma R/o 142/23, Mohalla- Ramchandrakant, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Amesh Kumar Sharma S/o Som Dutt Sharma, R/o, 46, Mohalla Mehtan, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Residential House South Facing Area Measuring In East - 40 Feet, West- 40 Feet, North- 20 Feet And South- 20 Feet, Having Total Area of 800 Square Feet, Chabutra Area Measuring East- 8 Feet, West- 8 Feet, North - 5 Feet And South - 5 Feet Total Measuring 40 Feet Total Crea Measuring 840 Square Feet I.E. 78. Square Meter And Constructed Area One Room, Kitchen And Stairs Covered Area Measuring 250 Square Feet I.e. 23.23 Square Meter, Bounded In East- Property of Sh. Kamal Kumar & Ashok Kumar, West - Common Chabutra And House of Sh. Om Prakash Verma, North- House of Sh. Surendra Kumar Modi And South - Road Situated In Mohalla Ram Chadrakant Jwalapur (Within Limits Nagar Nigam Haridwar) Pargana Jwalapur Tehsil And Distt. Haridwar, Uttarakhand. Sale Deed Registered On Dated 23.06.2008 In Bahi No. 1, Zild 693, Pages 149 To 166, Serial No. 4244 Dated 24.06.2008 In The Office Of Sub - Registrar Office Haridwar.	24.05.2021	04.08.2021	Rs. 6,74,877.72 as on 31.03.2021 + further interest and Other expenses
				Symbolic Possession	
2.	Branch: Amhadpur, Haridwar Borrower: 1. Sh. Tajeet Singh Nanra S/o Mahendra Singh Nanra, 2. Sh. Mahendra Singh Nanra S/o. Sh. Guru Charan Singh Nanra, All R/o Flat No. 5121, Block - 3, Vardhman Towers, JURs Country, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Anil Matta S/o Sh. Bhagwan Dass Matta, R/o. Flat No. 5119, Block- 3, Vardhman Towers, JURs Country, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Property Part of Plot No. 25 And 26, Area Measuring In East- 28 Feet, West- 28 Feet, North- 50 Feet And South- 50 Feet, Measuring 1400 Sq. Feet. I.E. 130.11 Sq. Meter, Belonging To Kharsa No. 1460 (Outside Municipal Limits) Situated At Shivam Vihar, Village - Salempur Mehdood - 2, Pargana Roorkee, Tehsil And Distt. Haridwar Which Is Bounded And Butted In East- Plot No. 15 And 16, West- 20 Feet Wide Road, North- Part of Plot No. 25 And South - Part of Plot No. 26. Sale deed registered at bahi no. 1, zild no. 1954, pages 195 to 210, serial no. 8775 dated 31.10.2014.	24.05.2021	04.08.2021	Rs. 30,45,430.76 as on 31.03.2021 + further interest and Other expenses
				Symbolic Possession	
3.	Branch: Amhadpur, Haridwar Borrower: Sh. Sachin Kaushik S/o Sh. Shiv Kumar Sharma, R/o 270/245, Mohalla Shivpuri (Acharyan) Shrikhupura, Kankhal, Haridwar - 249408, Uttarakhand. Guarantor: Smt. Sandhya W/o Sh. Rajendra Tiwari R/o. Mohalla Pandeywala, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Double Story Residential House Measuring In East - 39 Feet, West - 39 Feet, North - 12 Feet And South - 16 Feet, Having Total Area 546 Sq. Feet I.e. 50.74 Sq. Meter, Consisting of One Hall, Litrine- Bathroom, Stairs At Ground Floor And Two Rooms, Kitchen And Stairs Constructed At First Floor. Covered Area 101.48 Sq.Feet Bounded In East - Gali 12 Feet Wide, West - House Of Sh. Baburam Saini, North - A Way And Chowk And South - Baburam Saini, Having Nagar Palika House Tax Account No. 270/245, Situated At Mohalla Shivpuri (Acharyan) Shekhupura Kankhal (Under Nagar Nigam Haridwar), Pargana Jwalapur, Tehsil And Distt. Haridwar. Sale Deed Registered In Bahi No. 1, Zild No. 2690, Pages 335 To 362 , Is Sr. No. 5007, On Dated 26.06.2013. At Office Of Sub Registrar - 1, Haridwar.	24.05.2021	04.08.2021	Rs. 22,60,633.00 as on 31.03.2021 + further interest and Other expenses
				Symbolic Possession	
4.	Branch: Amhadpur, Haridwar Borrower: Sh. Upendra Kumar S/o. Late Babulal Dhiman, R/o. 179, Shivpura, Kankhal, Haridwar- 249408, Uttarakhand.	Property Residential Flat No S8, Second Floor (Without Roof) Consisting of Two Rooms, One Drawing Room, 2 Latrine Bathrooms, One Kitchen And Two Balcony, Super Area Measuring 908.6 Sq. Ft. Or 84.43 Sq.Mt., Covered Area 73.52 Sq.Mt. (Part Of Kharsa No. 161 And 162m), Situated At Krishna Apartment, Purshottam Vihar Colony, Mouja - Shekhupura Kankhal, Pargana - Jwalapur, Tehsil And Distt. Haridwar (Within Municipal Limits) At Bahi No. 1, Zild 2451 Pages 97 To 122 No. 9002 Dated 30.11.2012 Duly Registered In The Office of Sub- Registrar Haridwar, Which Is Bounded And Butted As Under East - Rasta 9 Meter, West- Common Lobby, North- Flat No. S-7, South- Common Rasta 9 Meters.	24.05.2021	04.08.2021	Rs. 14,72,317.28 as on 31.03.2021 + further interest and Other expenses
				Symbolic Possession	
5.	Branch: Amhadpur, Haridwar Borrower: 1. Smt. Sunita Malik W/o Sh. Sanjay Malik R/o House No. 32, Hanumantpuram Colony, Kankhal, Jagjeetpur, Pargana Jwalapur, Haridwar - 249407, Uttarakhand. 2. Sh. Sanjay Malik S/o Sh. Balbir Singh Malik, R/o House No. 32, Hanumantpuram Colony, Kankhal Jagjeetpur, Pargana Jwalapur, Haridwar - 249407, Uttarakhand.	Property No. 1. A House Build on Part Plot No 32 Measuring Inn East- 27 Feet, West - 27 Feet, North - 50 Feet And South - 50 Feet. Total Land Area 1350 Sq. Feet I.e. 126.46 Sq. Meter, Part of Bearing Kharsa No. 181,182,185 & 186 Situated At Hanumantpuram Colony Village Jagjeetpur Pargana Jwalapur Tehsil & Distt. Haridwar (Within Municipal Limit), Bounded In East - Road 20 Feet Wide, West - Plot No. 35, North - Plot No. 34 & South - Plot No. 32, Sale Deed No. 8784 Dated 18.11.2013 Registered At Bahi No. 1, Jild No. 2836, Pages 207 To 216 At Sub-Registrar Office Haridwar. Property No. 2. A House Build On Part Plot No 33 Measuring Inn East 27.25 Feet, West - 27.25 Feet, North - 50 Feet And South - 50 Feet. Total Land Area 1362.50 Sq. Feet I.e. 126.626 Sq. Meter, Part of Bearing Kharsa No. 181,182,185 & 186 Situated At Hanumantpuram Colony Village Jagjeetpur Pargana Jwalapur Tehsil & Distt. Haridwar (Within Municipal Limit), Bounded In East - Road 20 Feet Wide, West - Plot No. 30b, North - Plot No. 31, South - Plot No. 31, Sale Deed No. 4226 Dated 30.05.2012 Registered At Bahi No. 1, Jild No. 2256, Pages 37 To 50 At Sub-Registrar Office Haridwar.	24.05.2021	04.08.2021	Rs. 97,04,455.40 as on 31.03.2021 + further interest and Other expenses
				Symbolic Possession	
6.	Branch: Amhadpur, Haridwar Borrower: Smt. Padma Daga W/o Sh. Manoj Daga, R/o Plot No. 9, Evershine Enclave, Near Divine Light School, Jagjeetpur, Haridwar- 249408, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Manoj Daga S/o Late Brji Gopal Daga, R/o Plot No. 9, Evershine Enclave, Near Divine Light School, Jagjeetpur, Haridwar - 249408, Uttarakhand.	A Residential Property Having Plot of Land Bearing Part of Plot No. 9, Having Land Measuring In East - 35 Feet, West - 35 Feet, North - 20 Feet, And South - 20 Feet, Having Total Area of 700 Square Feet I.e. 65.05 Square Meter, Bounded In East - Way 20 Feet Wide, West - Remaining Part of Plot No. 9, North- Way 25 Feet Wide And South Plot No. 10, Belonging To Kharsa No. 585m/1, Situated In Ever Shine Enclave Village Jagjeetpur Musthakam (Out of Limits of Nagar Nigam Haridwar) Pargana Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar. Sale Deed Registered At Bahi No. 1, Zild - 2562, Pages 87-112, Doc No. 545 Dated 22.01.2016 At SRO Haridwar.	24.05.2021	04.08.2021	Rs. 34,00,780.25 as on 31.03.2021 + further interest and Other expenses
				Symbolic Possession	
7.	Branch: Amhadpur, Haridwar Borrower: 1. Smt. Omwati Pal W/o Sh. Ramesh Kumar, R/o House No. 83, New Basti,				

महीने के पहले हफ्ते में निर्यात 50 फीसद बढ़कर 7.41 अरब डॉलर

नई दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा)।

देश का निर्यात एक से सात अगस्त के दौरान 50.45 फीसद बढ़कर 7.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इंजीनियरिंग सामान, रत्न व आभूषणों का निर्यात अच्छा रहने से कुल निर्यात बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार एक से सात अगस्त के दौरान आयात भी 70 फीसद बढ़कर 10.45 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह

व्यापार घाटा तीन अरब डॉलर रहा। समीक्षाधीन अवधि में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 63 फीसद बढ़कर 83.4 करोड़ डॉलर रहा। रत्न व आभूषणों का निर्यात 121 फीसद बढ़कर 41.8 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 14.5 फीसद बढ़कर 52.2 करोड़ डॉलर रहा। हालांकि, इस दौरान लौह अयस्क, खली और तिलहन के निर्यात में गिरावट आई। एक से सात अगस्त के दौरान देश का कच्चे तेल का आयात 141 फीसद बढ़कर

1.80 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का आयात 31 फीसद बढ़कर 30.8 करोड़ डॉलर रहा। इस अवधि में सोने का आयात 12.48 फीसद घटकर 10 करोड़ डॉलर रह गया।

इस दौरान अमेरिका को निर्यात 48.4 फीसद बढ़कर 46.27 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात 70 फीसद बढ़कर 20.97 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब को 180 फीसद बढ़कर 16.4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया।

‘ई-कॉमर्स’ कंपनियों से छोटे दुकानदारों को नुकसान नहीं होने देंगे : सरकार

नई दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने देश में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों से छोटे और खुदरा कारोबारियों को नुकसान होने की बात स्वीकार करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करेगी। इस संबंध में नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों को और मजबूत बनाने का आश्वासन देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा को बताया कि सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ही ई-कॉमर्स कंपनियों में भी शिकायत अधिकारी बनाने का विचार है। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से छोटे दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं।

1 अक्टूबर से एटीएम में नकदी नहीं तो बैंक पर लगेगा जुर्माना

मुंबई, 10 अगस्त (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाया है। उसने निर्णय किया कि एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम (ऑटोमैटेड टेलर मशीन) में 10 घंटे से अधिक

समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने परिपत्र में कहा, ‘एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।’ रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं।

सूचकांक 152 अंक बढ़कर नई ऊंचाई पर

मुंबई, 10 अगस्त (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक मंगलवार को 152 अंक की बढ़त के साथ रेकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले एचडीएफसी, भारतीय एअरटेल और इन्फोसिस में तेजी के साथ बाजार में मजबूती आई।

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक 151.81 अंक यानी 0.28 फीसद की बढ़त के साथ रेकॉर्ड 54,554.66 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21.85 अंक यानी 0.13 फीसद की तेजी के साथ 16,280.10 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में करीब चार फीसद की तेजी के साथ भारतीय एअरटेल सर्वाधिक लाभ वाला शेयर रहा। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक में प्रमुख रूप से तेजी रही। दूसरी तरफ गिरावट वाले शेयरों में टाटा स्टील, एनटीपीसी, आइटीसी और पावरग्रिड शामिल हैं।

रिलायंस सिन्क्रोटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को जोरदार उतार-चढ़ाव रहा। निफ्टी रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तेजी से नीचे आया। मुख्य रूप से धातु, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और रियल्टी शेयरों में विक्रवाली दबाव से इसमें गिरावट आई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर अन्य वित्तीय शेयरों से बाजार को समर्थन मिला और बड़ी गिरावट पर लगाम लगा। बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों ने आइटी कंपनियों के शेयरों को तरजीह दी।

17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी

नई दिल्ली, 10 अगस्त। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की 9,871 करोड़ रुपए की पांचवीं मासिक किस्त जारी कर दी। राज्यों को उनकी केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी का अंतरण होने के बाद भी राजस्व खाते में अंतर को पाटा जा सके। व्यव विभाग ने आय से अधिक खर्च होने पर होने वाले

अनुदान दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी का अंतरण होने के बाद भी राजस्व खाते में अंतर को पाटा जा सके। व्यव विभाग ने आय से अधिक खर्च होने पर होने वाले

राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिये नौ अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए की पांचवीं किस्त जारी कर दी। (भाषा)

ANNA INFRASTRUCTURES LIMITED				
CIN : L65910UP1993PLC070612				
Regd. Office : SHOP NO. 1 & 3, E-14/E, First Floor, Shanta Tower, Sanjay Park, Agra - 282002				
Email ID : annainfra@gmail.com Website : www.annainfra.com Telephone: 0562-2527004				
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021				
Rs in Lacs				
Particulars	3 months ended		Previous	
	30/06/2021	Year to Date figures	3 months ended (31/03/2021)	Previous accounting year ended (31/03/2021)
1 Total Income from Operations (Net)	20.04	20.04	72.18	101.23
2 Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	1.03	1.03	34.64	38.26
3 Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax (after Extra Ordinary Items)	1.03	1.03	34.64	38.26
4 Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (after Extra Ordinary Items)	0.64	0.64	25.38	28.98
5 Total Comprehensive Income for the period (after tax & Extra Ordinary Items)	0.64	0.64	25.38	28.98
6 Equity Share Capital	380.00	380.00	380.00	380.00
7 Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	NA	NA	NA	558.91
8 Earnings Per Share (EPS) (in Rs.)				
(a) EPS - Basic & Diluted after Extraordinary Items	0.02	0.02	0.67	0.76
(b) EPS - Basic & Diluted after Extraordinary Items	0.02	0.02	0.67	0.76

Note: The above is an extract of detailed format of standalone Financial Results for the quarter ended June 30th, 2021 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the quarter ended June 30th, 2021 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com).

For and on behalf of Anna Infrastructures Limited
Sd/-
(ANIL KUMAR AGARWAL)
Whole Time Director

Place : Agra
Date : 10th August, 2021

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड					
पंजी. कार्या: 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराक रोड, नई दिल्ली-110001					
CIN: L74100DL1985PLC010878 फोन: 91-11-40045955					
ई-मेल: compliance@kotiaenterprises.com, वेबसाइट: www.kotiaenterprises.com					
30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अंशकृत वित्तीय परिणाम					
(रु. लाखों में)					
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही हेतु	समाप्त वर्ष		
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	
		अंशकृत	अंशकृत	अंशकृत	
1	प्रचालन से कुल आय (रुप)	40.88	42.28	39.73	168.14
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अभावदायक और/व असाधारण मदों को घटा)	19.69	19.26	12.81	37.98
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अभावदायक और/व असाधारण मदों को घटा)	19.69	19.26	12.81	37.98
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अभावदायक और/व असाधारण मदों को घटा)	14.73	14.38	9.48	28.36
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	14.73	15.63	9.95	28.36
6	इक्विटी शेयर पूंजी	702.05	702.05	702.05	702.05
7	पिछले वर्ष की अंशकृत बर्सेस शीट में दिखाए अनुसार रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों को घटा) (प्रत्येक ₹ 10/- के) मूल्य	0.21	0.20	0.14	0.40
	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अभावदायक और/व असाधारण मदों को घटा)	0.21	0.20	0.14	0.40

नोट्स:
1 10 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अंशकृत वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और फिर निवेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
2 उपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित कंपनी (सार्वजनिक लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 द्वारा स्थापित/संशोधित कंपनी (सार्वजनिक लेखांकन मानक) नियम, 2015 के मान्यताप्राप्त एवं मासिक विवरणों के अनुसार तैयार किये गये हैं।
3 वर्तमान अवधि के बर्सेसिंग की पुष्टि के लिए जहां कहीं आवश्यक हुआ, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समुचित किया गया है।
4 यह परिणाम कंपनी की वेबसाइट: www.kotiaenterprises.com पर भी उपलब्ध किए जाते हैं।

नई दिल्ली
10 अगस्त, 2021
कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता./-
अमित शर्मा
(कंपनी अधिकारी एवं अनुपालन अधिकारी)

HEXA TRADEX LIMITED							
CIN - L51101UP2010PLC042382							
Regd. Office : A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403							
Corp. Office : Jindal Centre, T2, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066							
EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021							
(Rupees in Lakhs)							
S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total income from operations	-	0.65	-	14.58	9.61	38.54
2.	Net profit/(loss) before tax	(58.05)	(42.12)	(39.84)	(186.02)	117.25	999.85
3.	Net profit/(loss) after tax	(43.41)	(29.94)	(29.81)	39.73	65.99	951.88
4.	Total comprehensive income [Comprising profit/(loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	30,099.61	33,525.35	(22.72)	90,294.94	36,477.68	32,385.24
5.	Equity share capital	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91
6.	Other equity	-	-	-	115,092.48	-	-
7.	Earnings per share (of ₹ 2/- each)						
	(1) Basic	(0.08)*	(0.05)*	(0.05)*	(0.25)	0.07*	0.58*
	(2) Diluted	(0.08)*	(0.05)*	(0.05)*	(0.25)	0.07*	0.58*

* Not Annualised
Note:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/interim/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/interim/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.hexatradex.com.
On behalf of Board of Directors of Hexa Tradex Limited
Sd/-
Veni Verma
Managing Director
DIN : 07586927

पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank				
मंडल सचिव कार्यालय- देहरादून ईस्ट, 1 पल्टन बाजार, क्लॉक टॉवर, देहरादून, फोन नं: 0136-2716115				
(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुखा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)				
आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपुर्द हुए विना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूँ। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटोरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सशुद्ध बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरुद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत अतिरिक्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।				
क्र. सं.	ऋणी/बंधकर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति/सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
1.	शाखा: सहस्त्रनाथ रोड, देहरादून (ई-ओबीसी)	बंधक आवासीय प्लॉट खाता नं 00096 (खतौनी के अनुसार 1422-1427 फरती)। घरमा नं 92Ka , माप क्षेत्रफल 89.21 वर्ग मीटर, स्थित मोगा कुल माप, परमना पड़वतून, जिला- देहरादून, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती रंजु चौहान, बर्दी नं 0 1, निवा: देहरादून, (उत्तराखण्ड)-248001। पंजीकृत पता: विना नं 5, बेरत ग्रीन वैली, निक्ट डीआईटी कुल माप, देहरादून (उत्तराखण्ड)- 248009, 2. श्री मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी: C/O ओम प्रकाश, विना नं 5, बेरत ग्रीन वैली, निक्ट डीआईटी कुल माप, देहरादून (उत्तराखण्ड)-248009, गारन्टर: श्रीमती रंजु चौहान पत्नी मनोज कुमार, निवासी: C/O ओम प्रकाश, विना नं 5, बेरत ग्रीन वैली, निक्ट डीआईटी कुल माप, देहरादून (उत्तराखण्ड)-248009,	दिनांक 27.07.2021 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रु 14,99,006.22 + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्रामाण वापस आ गया	26.07.2021 को रु 14,99,006.22 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 01.07.2021 से
2.	शाखा: हरिद्वार द्वारा रोड, ऋषिकेश	द्विचक्रियक व्यावसायिक वाहन- मिनी बस, पंजीकृत नाम श्री सोहन लाल पुत्र इन्द्रमणि। निर्माण: टाटा मोटर्स लिमिटेड मोडल: LP712EX/38/497TC/FC/SH/BSH/BUS इंधन नं: MAT453515F7H13444 बैरिस नं: 4977C92HU829824 पंजीकृत नं: UK14PA0120 पंजीकृत दिनांक: 03.11.2015	दिनांक 22.07.2021 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रु 13,52,734.80 + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्रामाण वापस आ गया	30.06.2021 को रु 13,52,734.80 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 01.07.2021 से
3.	शाखा: हरिद्वार द्वारा रोड, ऋषिकेश	बंधक सम्पत्ति घरमा नं 793 विन, क्षेत्रफल 230 वर्ग मज अर्थात 192.37 वर्ग मीटर, स्थित मोगा श्यामपुर परमना पड़वतून, तहसील ऋषिकेश, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड, सव-रजिस्ट्रार ऑफिस-ऋषिकेश, जिला- देहरादून, बुक नं 00 01, इलेक्ट्री स्टेट जिल्द नं 1466, पेज नं 0 139 से 152, दस्तावेज नं 6791, दिनांक 12.10.2011 पर पंजीकृत है। सीमाएं- पूर्व: श्री उदडी जौ की भूमि, पश्चिम: श्रीमती सुषमा देवी की सम्पत्ति, उत्तर: 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: अन्य की भूमि। सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सोनी देवी रावत पत्नी रमेश रावत, निवासी: एनडीएस रोड, श्यामपुर, परमना पड़वतून, तहसील- ऋषिकेश, जिला- देहरादून।	दिनांक 28.07.2021 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रु 24,33,440.00 + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्रामाण वापस आ गया	28.07.2021 को रु 24,33,440.00 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 01.07.2021 से

दिनांक-10.08.2021 स्थान - देहरादून प्राधिकृत अधिकारी

SRM ENERGY LIMITED						
Regd. Office : 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi 110057						
CIN: L71700DL1985PLC303047 Tel. No. 911-41403205 Website: www.srmenergy.in Email: info@srmenergy.in						
Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Results for the Quarter Ended 30/06/2021 (₹ in lac)						
Sl No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Quarter ending (Unaudited)	Quarter ending (Unaudited)	Year ending (Audited)	Quarter ending (Unaudited)	Year ending (Audited)
		30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021
1	Other Income	-	0.04	0.09	2.48	3.50
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(9.56)	(9.36)	(42.95)	(8.06)	(5.90)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(9.56)	(9.36)	(42.95)	(8.06)	(5.90)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(9.56)	(9.36)	(42.95)	(8.06)	(5.90)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(9.56)	(9.36)	(42.95)	(8.06)	(5.90)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
7	Other equity	-	-	(1,154.04)	-	(5,126.80)
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic 2. Diluted	(0.11) (0.11)	(0.10) (0.10)	(0.47) (0.47)	(0.09) (0.09)	(0.07) (0.07)

NOTES:
a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on the stock exchange website www.bseindia.com and on the company website www.srmenergy.in
b) The above Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 10, 2021.
For and On behalf of Board
Sd/-
Vijay Kumar Sharma
Director
Place: New Delhi
Date: August 10, 2021

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED				
CIN-L74899DL2000PLC105817				
Regd. & Corporate office: D-174, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020				
Tel.: 011-47351111 Fax.: 011-2622 9671				
Website: www.tigerlogistics.in, Email.: tlgs@tigerlogistics.in				

Statement of Unaudited Financial Results For The Period Ended June, 30, 2021.

Figures in lakhs						
S. No.	Particulars	Standalone				
		Quarter Ended		Year Ended		
		June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1.	Total Income from Operations	8162.56	6572.4	2395.26	16925.86	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)#	422.38	444.78	-728.22	-1212	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	422.38	344.02	-728.22	-1212	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	424.71	349.2	-720.73	-1242.45	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	424.71	356.7	-741.26	-1072.66	
6.	Equity Share Capital	105.72	105.72	105.72	105.72	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-</			